

तुरंत रिलीज के लिए

## सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए घोषित स्टेट ऑफ एमरजेंसी को खत्म किया

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (24 मार्च, 2022) – आज, कोविड-19 (COVID-19) महामारी को फैलने से रोकने के लिए, स्टेट ऑफ एमरजेंसी की घोषणा करने के दो वर्षों बाद, मेयर पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown) ने सिटी काउंसिल (City Council) की ओर से और सिटी की एमरजेंसी मैनेजमेंट (Emergency Management) टीम की सलाह पर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की घोषित एमरजेंसी को खत्म कर दिया है।

रीजन ऑफ पील (Region of Peel) ने भी, मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ, डा. लॉरेंस लोह (Lawrence Loh) के साथ-साथ, रीजनल एमरजेंसी मैनेजमेंट (Regional Emergency Management) के साथ मशविरे के बाद, [आज अपनी घोषित एमरजेंसी को खत्म कर दिया है \(terminated its declared emergency today\)](#)।

सिटी के एमरजेंसी मैनेजमेंट प्लान (Emergency Management Plan) के मुताबिक, [सिटी के द्वारा 24 मार्च, 2020 को एमरजेंसी की घोषणा की गई थी \(City declared an emergency on March 24, 2020\)](#)। यह घोषणा, कोविड-19 (COVID-19) को फैलने से रोकने में मदद के लिए, ओनटैरियो प्रांत और रीजन ऑफ पील के प्रयासों की हिमायत में एक बड़ा कदम था। एमरजेंसी की घोषणा एक एडमिनिस्ट्रेटिव साधन था, जिससे सिटी, कम्युनिटी को सुरक्षित रखने के लिए, अधिक फुर्ती से काम कर पाई है।

सिटी ने स्वास्थ्य और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया हुआ है, जब यह धीरे-धीरे और सुरक्षा के साथ दुबारा खुल रही है और सिटी, निवासियों का धन्यवाद करती है कि उन्होंने महामारी के दौरान, इसे फैलने से रोकने में मदद के लिए शारीरिक दूरी, अच्छी तरह सफाई रखकर, वैक्सीन लगवाकर और मास्क पहनकर अपनी भूमिका निभाई।

निवासियों को चाहिए कि यदि वे बीमार हों तो घर में ही रहकर और कोविड-19 के विरुद्ध वैक्सीन और बूस्टर डोज लगवाकर, कम्युनिटी के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देना जारी रखें। कोविड-19 वैक्सीनेशन के बारे में बिल्कुल ताजा जानकारी के लिए, [प्रांत के वैक्सीन पोर्टल \(Province's vaccine portal\)](#) पर जाएं।

यदि ब्रैम्पटन में कोविड-19 की स्थिति बदलती है, तो सिटी, पील पब्लिक हेल्थ (Peel Public Health) के साथ काम करना और एमरजेंसी में प्रतिक्रिया करने की हिमायत के लिए, स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी सभी प्रोविंसियल और रीजनल उपायों का पालन जारी रखेगी।

**कोविड-19 स्पोर्ट टास्क फोर्सिज**

महामारी के दौरान, सिटी, स्टाफ और निवासियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा करने और लोकल अर्थव्यवस्था और अनुपातहीन ढंग से प्रभावित कम्युनिटीज की हिमायत करने के लिए प्रतिबद्ध रही है। मार्च 2020 में, सिटी ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के प्रभावी उपायों में तालमेल बिठाने के लिए, चार मेयर्स कोविड-19 स्पोर्ट टास्क फोर्सिज: इकोनॉमिक स्पोर्ट टास्क फोर्स (Economic Support Task Force), सोशल स्पोर्ट टास्क फोर्स (Social Support Task Force), यूथ स्पोर्ट टास्क फोर्स (Youth Support Task Force) और सीनियर्स स्पोर्ट टास्क फोर्स (Seniors Support Task Force) की घोषणा की थी।

सिटी, पिछले 2 वर्षों से कोविड-19 को फैलने से रोकने के अपने प्रयासों और ब्रैम्पटन कम्युनिटी की सहायता के लिए, टास्क फोर्सिज से जुड़े सभी लोगों का तहेदिल से धन्यवाद करती है, इनमें शामिल हैं:

- **इकोनॉमिक स्पोर्ट टास्क फोर्स को-लीडर्स**; पॉल विसेंट (Paul Vicente), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5 और माइकल प्लेशी (Michael Palleschi), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 2 और 6
- **सोशल स्पोर्ट टास्क फोर्स को-लीडर्स**; रोएना सैंटोस (Rowena Santos), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5 और जेफ बोमैन (Jeff Bowman), सिटी काउंसलर, वार्ड्स 3 और 4
- **यूथ स्पोर्ट टास्क फोर्स को-लीडर्स**; शार्मेन विलियम्स (Charmaine Williams), सिटी काउंसलर, वार्ड्स 7 और 8 और हरकीरत सिंह (Harkirat Singh), सिटी काउंसलर, वार्ड्स 9 और 10
- **सीनियर्स स्पोर्ट टास्क फोर्स को-लीडर्स**; पैट फोर्टिनी (Pat Fortini), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 7 और 8 और गुरप्रीत ढिल्लों (Gurpreet Dhillon), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 9 और 10
- **बैकयार्ड गार्डन प्रोग्राम (Backyard Garden Program) चेयर**; डग विलैन्स (Doug Whillans), सिटी काउंसलर, वार्ड्स 2 और 6
- **रीओपनिंग एंड रिकवरी वर्किंग ग्रुप (Reopening and Recovery Working Group) लीड**; मार्टिन मेडेइरोस (Martin Medeiros), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 3 और 4

स्टेट ऑफ एमरजेंसी को खत्म करने के साथ, सिटी टास्क फोर्सिज की बदली करेगी और सिटी की सेवा डिलीवरी और कम्युनिटी सोशल स्पोर्ट नेटवर्क्स के द्वारा, कम्युनिटी को सहायता प्रदान करती रहेगी।

### कोविड-19 संबंधी जारी उपाय

निवासियों को याद दिलाया जाता है कि हालांकि सिटी ने, अपना [ब्रैम्पटन कोविड-19 आवश्यक चेहरा ढकना बाड़-लॉ \(Brampton COVID-19 Mandatory Mask By-law\)](#) खत्म कर दिया है, फिर भी चुनिंदा सेटिंग्स में मास्क पहनने की शर्त जारी है, जैसे पब्लिक ट्रांज़िट, हेल्थ केयर सेटिंग्स, लॉन्ग-टर्म केयर होम्स और कोन्ग्रीगेट केयर सेटिंग्स। निवासियों से अनुरोध है कि वे उन लोगों का सम्मान करें, जो उन सेटिंग्स में भी मास्क पहनना जारी रखना चाहते हैं, जहां वे जरूरी नहीं हैं।

प्रांत के रेग्युलेशन्स (Province's regulations) के मुताबिक, ब्रैम्पटन ट्रांज़िट (Brampton Transit) की सभी बसों और ब्रैम्पटन ट्रांज़िट के टर्मिनल्स पर, मास्क पहनने की शर्त जारी रहेगी। सफाई और सेनिटाइज करना जारी है और जिन फैसिलिटीज और टर्मिनल्स की ठोस सतहें हैं, उन्हें रोजाना पोंछा जा रहा है और सेनिटाइज किया जा रहा है।

सेवा अपडेट्स के लिए, [www.bramptontransit.com](http://www.bramptontransit.com) पर जाएं या Twitter पर, @bramptontransit को फॉलो करें। सवाल सीधे, ब्रैम्पटन ट्रांज़िट के संपर्क केंद्र (Contact Centre) को, 905.874.2999 पर पूछे जा सकते हैं।

रेक्रिएशन फैसिलिटीज सहित, सिटी की फैसिलिटीज में प्रवेश करने के लिए प्री-स्क्रीनिंग की जरूरत नहीं है। निवासियों को सलाह दी जाती है कि यदि वे बीमार महसूस कर रहे हों तो घर में ही रहना जारी रखें।

### हवाले

“मुझे यह घोषणा करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमने, ब्रैम्पटन में कोविड-19 को फैलने से रोकने के प्रयासों में, हमारी स्टेट ऑफ एमरजेंसी को खत्म करने की स्थिति में हैं। यदि हमारे निवासियों, सिटी के स्टाफ, हेल्थ केयर वर्कर्स और सिटी टास्क फोर्स के मेम्बरों ने शानदार प्रयास न किए होते, तो हम इस स्थिति में न होते। चूंकि हम महामारी के इस अगले पड़ाव में जा रहे हैं, मुझे पता है कि हम जीत जाएंगे, जैसे पिछले दो वर्षों में – कम्युनिटी के तौर पर जीते हैं।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“पिछले दो वर्षों में, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन में हमारी टीम, वे सेवाएं, जिन पर हमारे निवासी और कारोबारी निर्भर करते हैं, प्रदान करना जारी रखते हुए हमारी कम्युनिटी के स्वास्थ्य और सुरक्षा के बचाव के लिए दृढ़तापूर्वक प्रतिबद्ध रही है। मैं स्टाफ के प्रयासों के लिए तहेदिल से उनका धन्यवाद करता हूं और सिटी की ओर से, हम महामारी के इस अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हुए, हमारी कम्युनिटी को सेवा देना जारी रखने के लिए उत्साहित हैं।”

- पॉल मोरिसन (Paul Morrison), इंटरिम चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 70,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](https://twitter.com/bramptontransit), [Facebook](https://facebook.com/bramptontransit), और [Instagram](https://instagram.com/bramptontransit) पर जुड़ें। [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर और जानें।

मीडिया संपर्क

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन मल्टीकल्चरल मीडिया

